



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ 1938 (श10)

(सं0 पटना 549) पटना, बृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/सी0- 1065/2009-8364-सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

10 जून 2015

श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के विरुद्ध सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14657/06 (कुमारी आरती बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2007 के आलोक में नियमानुसार आदेश पारित नहीं करने, जिन बिन्दुओं पर सुनवाई करना था उन पर सुनवाई किये बगैर पंचायत के मुखिया को मानदेय का भुगतान करने तथा सेवा विस्तार करने का आदेश देने संबंधित आरोपों के लिए जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 4115 दिनांक 16.08.2010 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री अविनाश कुमार से विभागीय पत्रांक 1835 दिनांक 11.02.2011 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्पश्चात् स्मार पत्र संख्या 5903 दिनांक 26.05.2011, 9426 दिनांक 23.08.2011 एवं 8025 दिनांक 05.06.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु स्मारित भी किया गया। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 280 दिनांक 08.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 1076 दिनांक 25.11.2014 द्वारा प्राप्त आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार से उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 245 दिनांक 06.01.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के संगत प्रावधानों के तहत अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री अविनाश कुमार ने पत्रांक 202 दिनांक 31.01.2015 द्वारा अपना अभ्यावेदन समर्पित किया।

आरोप-पत्र, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के अभ्यावेदन दिनांक 31.01.2015 की समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5693 दिनांक 15.04.2015 द्वारा श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत "निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08) एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड दिया एवं संसूचित किया गया।

श्री कुमार ने उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध पत्रांक 918 दिनांक 22.04.2015 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया। जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि "उपरोक्त

परिपेक्ष्य के आलोक में आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होता है”। लेकिन विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5693 दिनांक 15.04.2015 द्वारा निंदन एवं संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकी गई है। यह दण्ड उनके जैसे वेतनभोगी के लिए बहुत कड़ा दण्ड है। उक्त आधार पर इन्होंने अभ्यावेदन पर विचार करते हुए दण्ड समाप्त करते हुए इन्हें दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा अपने अभ्यावेदन में स्वयं स्वीकार किया गया है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा उनके स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि उनके स्पष्टीकरण को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इन्हें आरोप मुक्त नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा श्री कुमार का कहना कि प्रासंगिक विभागीय संकल्प के द्वारा निर्गत दंडादेश में संचयात्मक प्रभाव से उनका दो वेतनवृद्धि रोका गया है सही नहीं है क्योंकि प्रासंगिक दंडादेश में निंदन के साथ असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया गया है, जो लघु दंड की श्रेणी में आता है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5693 दिनांक 15.04.2015 द्वारा इनके विरुद्ध “निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08) एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक” के संसूचित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5693 दिनांक 15.04.2015 द्वारा “निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08) एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक” के संसूचित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 549-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>